



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1940 (श0)  
(सं0 पटना 07) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2019

गृह विभाग  
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश  
20 सितम्बर 2018

सं० अ0नि0 (02) 19/2017 (नि0सं0)—98/18

सं० अ0नि0 (02) 19/2017 (नि0सं0) 1792—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति रोहतास (सासाराम) के ज्ञापांक 04(मु0) दिनांक 04.08.2016 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 13293 दिनांक 05.10.1991 एवं 5958 दिनांक 25.04.2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्व० हरदेव विश्वास, पूर्व अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) की पत्नी श्रीमती मधुमिता सिंह को अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान PB1-5200-20200 ग्रेड-पे 1900 (लेवल-2) एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए इनका पदस्थापन जिला अभियोजन कार्यालय, पूर्णियाँ में की जाती है।

2. श्रीमती सिंह नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर जिला अभियोजन कार्यालय, पूर्णियाँ में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगी।
3. योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र तथा जन्म तिथि प्रमाण-पत्र एवं अन्य वॉछित कागजातों/प्रमाण-पत्रों को मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
4. योगदान करते समय अस्ैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल रूप में समर्पित करना होगा।
5. स्व० हरदेव विश्वास, पूर्व अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के आश्रित परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण का दायित्व श्रीमती मधुमिता सिंह पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर इसे गंभीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए इनके विरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर परिलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। इस संबंध में विहित प्रपत्र में एक घोषणा पत्र समर्पित करना होगा।
6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर इन्हें सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा तथा इनके विरुद्ध नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी।

8. इनकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों की जाँच निर्गत करने वाले संस्थान से पदस्थापन कार्यालय द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त ही वेतन का भुगतान किया जा सकेगा।
9. श्रीमती मधुमिता सिंह की सेवा सम्पुष्टि बिहार क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2014 के शर्तों के अनुसार की जा सकेगी।
10. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट,  
संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 07 -571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>